

LIL:SE:REG30:2023-24 August 01, 2023

BSE Limited	The National Stock Exchange of India Limited
Listing & Compliance Department	Listing & Compliance Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Exchange Plaza, C-1 Block G,
Dalal Street, Mumbai - 400001	Bandra Kurla Complex,
	Bandra (E), Mumbai – 400051
Security Code : 517206	Symbol: LUMAXIND

Subject: Intimation Regarding Publication of Notice Sent to the Members for 42nd Annual General Meeting of the Company, E-Voting and Completion of dispatch of Annual Report for Financial Year 2022-23.

Ref: Regulation 30 and Regulation 47(1)(d) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 and 47(1)(d) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, please find enclosed herewith copies of advertisement, regarding Notice sent to Members for 42nd Annual General Meeting of the Company and completion of dispatch of Annual Report on **Monday**, **July 31**, **2023** via e-mail to the members whose email addresses were registered with the Registrar and Share Transfer Agent i.e KFin Technologies Limited /Company and/or with Depository Participants, as published by the Company in the newspapers viz.

- i. English Advertisement in Financial Express- All India Edition.
- ii. Hindi Advertisement in Jansatta Delhi Edition

The same has also been uploaded on the Company's website at https://www.lumaxworld.in/lumaxindustries/corporate-announcements.html

You are requested to take the above information on records and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

For LUMAX INDUSTRIES LIMITED

RAAJESH KUMAR GUPTA EXECUTIVE DIRECTOR & COMPANY SECRETARY ICSI M.NO. A-8709

Encl: As stated Above

Lumax Auto Technologies Limited Plot No. -878, Udyog Vihar

Phase-V, Gurugram-122016

T +911244760000 E shares@lumaxmail.com

Haryana, India



DK IAIN

LUMAX

LUMAX INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74899DL1981PLC012804 Regd. Office: 2rd Floor, Harbans Bhawan-II, Commercial Complex, Nangal Raya, New Delhi- 110046 Tel: 011 49857832

Website: www.lumaxworld.in/lumaxindustries, Email: lumaxshare@lumaxmail.com

NOTICE OF 42ND ANNUAL GENERAL MEETING OF LUMAX INDUSTRIES LIMITED & E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that 42nd (Forty Second) Annual General Meeting ("AGM") of the members of Lumax Industries Limited ("the Company") will be held on Tuesday, August 22, 2023 at 10:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business(es), as set out in the Notice of AGM, without physical presence of the Members at a common venue. The Company has sent the Notice of 42rd AGM and Annual Report for

the Financial Year 2022-23 only through electronic mode on Monday. July 31, 2023 to Members whose e-mail addresses are registered with the Depository Participants ("DP") / Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") i.e., KFin Technologies Limited /the Company.

Members may note that the aforesaid Notice and Annual Report for the Financial Year 2022-23 are also available at the website of the Company i.e. https://www.lumaxworld.in/lumaxindustries/ on the website of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and other applicable provisions of Companies Act, 2013 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards on General Meeting (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide facility to its members, to cast their vote on all the Resolutions set forth in the Notice convening the AGM using electronic voting system ("remote e-Voting"), provided by National Securities Depository Limited ("NSDL"). The detailed procedure/instructions in this respect have been provided in notes to the Notice of AGM.

The members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the Cut-off date i.e., Wednesday, August 16, 2023, may cast their vote electronically. The e-voting period shall commence on Saturday, August 19, 2023 (09.00 A.M. IST) and ends on Monday, August 21, 2023 (05.00 P.M. IST). The e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting after 05:00 P.M. (IST) on Monday, August 21, 2023. Those who are not Members on the cut-off date should accordingly treat the AGM Notice for information purposes only. Once the vote on a resolution is cast by the member, he shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of Members shall be in proportion to the shares held by them in the total paid-up Equity Share Capital of the Company as on the cut-off date Members who have already cast their votes through remote e-Voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again. Members attending the AGM who have not cast their votes through remote e-Voting shall be able to exercise their voting rights during the AGM.

Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares on the Cut-off date i.e. Wednesday, August 16, 2023 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password to cast your vote.

The Company has appointed Mr. Maneesh Gupta, Practicing Company Secretary (FCS No.: 4982) as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

Members, who would like to express their views or ask questions during the AGM, may register themselves as a speaker by sending a request from their registered email address to lumaxshare@lumaxmail.com, mentioning their name, DP ID and Client ID/ folio number, PAN and mobile number at least 7 days prior to the date of AGM i.e. by Tuesday, August 15, 2023 by 5:00 P.M. (IST). Only those Members, who have registered themselves as a speaker, will be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of questions and number of speakers at the AGM.

Members who need assistance before or during the AGM with use of technology or in case of any queries or issues or grievances pertaining to e-voting, may please refer to Help/FAQ section /available at www.evoting.nsdl.com or call on Telephone no.: 022 - 4886 7000 and 022-2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.co.in. Alternatively, Members may also write to the Company Secretary of the Company at the email ID: lumaxshare@lumaxmail.com.

For Lumax Industries Limited

MOTILAL OSWAL

Motilal Oswal Asset Management Company Limited Registered & Corporate Office: 10th Floor, Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025

• Toll Free No.: +91 8108622222, +91 22 40548002 • Email: amc@motilaloswal.com

Website: www.motilaloswalmf.com
 CIN No.: U67120MH2008PLC188186

Raajesh Kumar Gupta Place : Gurugram Date: July 31, 2023 Executive Director and Company Secretary

The Kerala Minerals & Metals Ltd KMML (A Govt. of Kerala Undertaking) Sankaramangalam, Kollam,-6915.

Phone: +91-476-2651215 to 217, E-mail: contact@kmml.com,URL:www.kmml.co TENDER NOTICE ov.in.or www.kmml.com Tender ID

Chavara. 31.07.2023 Sd/ Managing Director for The Kerala Minerals and Metals Ltd

CAPITAL ReLI∆NCe

2023 KMML 591148 1 For the supply of HT Motor

Extract from the Consolidated Unaudited Financial Results of Reliance Capital Limited for the guarter ended June 30, 2023. (₹ in lakh, evcent ner share data)

-	F 2 8 V	0	V	0
SI. No.	Particulars	Quarter ended 30-Jun-23 Unaudited	Year ended 31-Mar-23 Audited	Quarter ended 30-Jun-22 Unaudited
1.	Total Income from Operations	5 95 715	19 03 691	3 59 638
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Item)		(1 65 427)	(45 766)
3,	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, Exceptional and / or Extraordinary Item)		(1 75 941)	(49 140)
4.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]		(2 05 775)	(79 339)
5.	Equity Share Capital	25 324	25 324	25 324
6.	Other Equity		(12 31 853)	
7.	Earnings Per Share (Basic & Diluted (Face Value of Rs.10/- each)) (not annualised)			
	(i) Basic (₹)	17.3	-70.07	-19.57
	(ii) Diluted (₹)	17.3	-70.07	-19.57

Limited for the quarter ended June 30, 2023.

SI. No.	Particulars	Quarter ended 30-Jun-23 Unaudited	Year ended 31-Mar-23 Audited	Quarter ended 30-Jun-22 Unaudited
1	Total Income	1 467	2 098	268
2	Profit / (Loss) before tax	21 052	(1 70 770)	(21 475)
3	Profit / (Loss) after tax	21 052	(1 70 770)	(21 475)

financial results filed with the Stock Exchange(s) on July 30, 2023, under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the Company's website i.e. www.reliancecapital.co.in and on the website of the Stock Exchange(s) i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com

The Reserve Bank of India ("RBI") has superseded the board of directors of Reliance Capital Limited ("Company") and appointed Mr. Nageswara Rao Y as the Administrator of the Company in terms of Section 45-IE of the Reserve Bank of India Act, 1934 ("RBI Act"). The RBI, in exercise of powers conferred under Section 45-IE 5(a) of the RBI Act, had constituted a three-member Advisory Committee to assist the Administrator of the Company in discharge of his duties. Further, pursuant to an order dated December 6, 2021 of the National Company Law Tribunal, Mumbai Bench ("NCLT"), Corporate Insolvency Resolution Process ("CIRP") has been initiated against the Company as per the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("Code").

Reliance Capital Limited

Regd. Office: Kamala Mills Compound, Trade World

B Wing, 7th Floor, S. B. Marg, Mumbai 400 013

E-mail: rcl.investor@relianceada.com, Website: www.reliancecapital.co.in

hathw@y

HATHWAY CABLE AND DATACOM LIMITED

Regd. Office: 805/806, Windsor, 8th Floor, Off CST Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400 098 Tel No.: 022 40542500, Fax: 022 40542700 CIN: L64204MH1959PLC011421 Website: www.hathway.com; Email: info@hathway.net

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY SIXTY THIRD ANNUAL GENERAL **MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING**

Notice calling the Sixty Third Annual General Meeting ("AGM") of the Company, scheduled to be held in compliance with applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Tuesday, August 22, 2023 at 12:00 noon IST, and the Standalone and Consolidated Audited Financial Statements for the financial year 2022-23, along with the Board's Report, Auditors Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on Monday, July 31, 2023, electronically, to the Members of the Company. The Notice of AGM and the aforesaid documents are available on the Company's website at www.hathway.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of KFin Technologies Limited ("KFinTech") at https://evoting.kfintech.com.

The Annual Report of the Company for the year 2022-23 can be accessed a https://www.hathway.com/assets/pdf/Annual%20Report-2022-23.pdf The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection by the members from the date of circulation of this Notice of the AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to info@hathway.net.

Remote e-voting and e-voting during AGM:

The Company is providing to its Members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of KFinTech as the agency to provide e-voting facility.

Information and instructions comprising manner of voting, including voting remotely by Members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for Members who have not registered their email address has been provided in the Notice of the AGM. The manner in which (a) persons who become Members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date (mentioned herein below); (b) Members who have forgotten the User ID and Password, can obtain /generate the same, has also been provided in the Notice of the AGM.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period Commencement of remote 9:00 a.m. IST on Saturday, August 19, 2023 End of remote e-voting 5:00 p.m. IST on Monday, August 21, 2023

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by KFinTech upor

expiry of the aforesaid period. Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting wi be able to vote electronically ("Insta Poll") at the AGM. A person, whose name is recorded in the Register of Members as on the

cut-off date, i.e. Tuesday, August 15, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for voting through Insta Poll. Manner of registering / updating email address: (a) Members holding shares in physical mode, who have not registered/

updated their email address with the Company, are requested to register/ update their email address with Link Intime India Private Limited, Registrar and Transfer Agent ("RTA"), by submitting Form ISR-1 (available on the website of the Company: www.hathway.com) duly filled and signed along with requisite supporting documents to Link Intime India Private Limited at C 101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083.

(b) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered /updated their email address with their Depository Participants, are requested to register / update their email address with the Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts

In case of any query pertaining to e-voting, members may refer to the "Help' and "FAQs" sections/ E-voting user manual available through a dropdown menu in the "Downloads" section of KFinTech's website for e-voting: https://evoting.kfintech.com.

Members are requested to note the following contact details for addressing queries/grievances, if any:

Mr. S.V Raju, Deputy Vice President KFin Technologies Limited

Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda Hyderabad 500 032, India

Email: evoting@kfintech.com Toll-free No.: 1800-309-4001 (from 9:00 a.m. IST to 5:00 p.m. IST)

Joining the AGM through VC/OAVM: Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM, through JioMeet

at https://t.jio/hathwayagm. The information about login credentials to be used and the steps to be followed for attending the AGM are explained in Note no. 8 of the Notice of AGM. Members who have cast their vote(s) by remote evoting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

By order of the Board of Directors **Ajay Singh**

Head Corporate Legal, Company Secretary Place: Mumbai & Chief Compliance officer **Dated: August 01, 2023** (FCS 5189)

hathw@y bhawani

HATHWAY BHAWANI CABLETEL & DATACOM LIMITED

Regd. Office: 805/806, Windsor, 8th Floor, Off CST Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai - 400 098 Tel No.: 022 40542500 Fax: 022 40542700 CIN: L65910MH1984PLC034514

Website: www.hathwaybhawani.com Email: investors.bhawani@hathway.net NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY THIRTY NINTH ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING

Notice calling the Thirty Ninth Annual General Meeting ("AGM") of the Company, scheduled to be held in compliance with applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Tuesday, August 22, 2023 at 03:00 p.m. IST, and the Standalone and Consolidated Audited Financial Statements for the financial year 2022-23, along with the Board's Report, Auditors Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on Monday, July 31, 2023, electronically, to the Members of the Company. The Notice of AGM and the aforesaid documents are available on the Company's website at www.hathwaybhawani.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com and on the website of KFin Technologies Limited ("KFinTech") at https://evoting.kfintech.com.

The Annual Report of the Company for the year 2022-23 can be accessed at https://hathwaybhawani.com/assets/pdf/HBCDL%20Annual%20Report %202022-23.pdf

The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection by the members from the date of circulation of this Notice of the AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to investors.bhawani@hathway.net.

Remote e-voting and e-voting during AGM: The Company is providing to its Members facility to exercise their right to vote

on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of KFinTech as the agency to provide e-voting facility. Information and instructions comprising manner of voting, including voting remotely by Members holding shares in dematerialised mode, physical mode

and for Members who have not registered their email address has been provided in the Notice of the AGM. The manner in which (a) persons who become Members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date (mentioned herein below); (b)Members who have forgotten the User ID and Password, can obtain /generate the same, has also been provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote	9:00 a.m. IST on Saturday, August 19, 2023
e-voting	5:00 p.m. IST on Monday, August 21, 2023
End of remote e-voting	5:00 p.m. IST on Monday, August 21, 2023

and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by KFinTech upon expiry of the aforesaid period. Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will

be able to vote electronically ("Insta Poll") at the AGM. A person, whose name is recorded in the Register of Members as on the cut-off date, i.e. Tuesday, August 15, 2023 only shall be entitled to avail

the facility of remote e-voting or for voting through Insta Poll. Manner of registering / updating email address: a. Members holding shares in physical mode, who have not registered/ updated their email address with the Company, are requested to register/

update their email address with KFinTech, Registrar and Transfer Agent ("RTA"), by submitting Form ISR-1 (available on the website of the Company: www.hathwaybhawani.com) duly filled and signed along with requisite supporting documents to KFinTech at Selenium Tower B, Plot 31- Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032. Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered / updated their email address with their Depository Participants, are

Participant(s) with whom they maintain their demat accounts. In case of any query pertaining to e-voting, members may refer to the "Help" and "FAQs" sections/ E-voting user manual available through a dropdown menu in the "Downloads" section of KFinTech's website for e-voting:

requested to register / update their email address with the Depository

https://evoting.kfintech.com. Members are requested to note the following contact details for addressing

queries/grievances, if any: Mr. V Balakrishnan, Vice President

KFin Technologies Limited

Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,

Hyderabad 500 032, India E-mail: evoting@kfintech.com

Toll-free No.: 1800-309-4001 (from 9:00 a.m. IST to 5:00 p.m. IST) Joining the AGM through VC/OAVM:

Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM, through JioMeet, at https://t.jio/hbcdlagm. The information about login credentials to be used and the steps to be followed for attending the AGM are explained in Note no. 8 of the Notice of AGM. Members who have cast their vote(s) by remote e-voting

may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at By order of the Board of Directors

Place : Mumbai Dated: August 01, 2023

Ajay Singh Company Secretary and Compliance officer FCS 5189

(Rs. in Crores)

UPL Limited

CIN: L24219GJ1985PLC025132

Regd. Office: 3 -11, G.I.D.C., Vapi, Valsad-396195, Gujarat Telephone: +91 260 2432716 | Email: upl.investors@upl-ltd.com | Website: www.upl-ltd.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30[™] JUNE 2023

_			Quarter ended				
Sr. No.	Particulars	Jun-23	Mar-23	Jun-22	Mar-23		
140.		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)		
1	Revenue from operations	8,963	16,569	10,821	53,576		
2	Net (Loss) / Profit for the period before tax (before exceptional items)	(19)	1,420	1,142	5,320		
3	Net (Loss) / Profit for the period before tax (after exceptional items)	(62)	1,391	1,064	5,150		
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items) attributable to shareholders of the Company	166	792	877	3,570		
5	Total Comprehensive Income for the period (after tax)	31	983	1,729	6,424		
6	Total Comprehensive Income attributable to shareholders of the Company	112	712	1,426	5,267		
7	Paid up equity share capital (Face Value of the Share - Rs. 2/- each)	150	150	150	150		
8	Other Equity				26,708		
9	Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 2/- each):	992330	Marie Season	ARMARAN	100 2010 110 110 110 110 110 110 110 110 110		
100	Basic Earnings per Share	1.33	10.68	10.76	45.79		
	Diluted Earnings per Share	1.33	10.68	10.76	45.79		

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of unaudited consolidated financial results for the guarter ended 30th June, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the unaudited financial results (consolidated and standalone) for the quarter ended 30th June, 2023 are available on the Company's website viz. www.upl-ltd.com and on the website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com).
- 2. For the other line items referred in regulation 52 (4) of the SEBI LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to NSE (www.nseindia.com) and can also be accessed on the Company's website viz. www.upl-ltd.com.
- Key standalone financial information is as under:

20			Year ended		
Sr. No.	Particulars	Jun-23 (Unaudited)	Mar-23	Jun-22 (Unaudited)	Mar-23 (Audited)
			(Audited)		
1 2	Revenue from operations Profit / (loss) before Tax	3,594 308	3,581 (56)	5,007 543	18,783
3		267	(163)	479	1,284 975

The above results have been reviewed and recommended to the Board of Directors by the Audit Committee at its meeting held on 31st July, 2023 and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on 31st July, 2023. These results have been subjected to limited review by the statutory auditor.

New Delhi

Rai Tiwari DIN - 09772257 Wholetime Director



For and on behalf of UPL Limited

Place: Mumbai Date: 31st July 2023

Sd/- T. Gopichand Chairman & Managing Director

(iii) Diluted (₹) Extract from the Standalone Unaudited Financial Results of Reliance Capital

The above is an extract of the detailed format of the guarter ended

July 30, 2023

CIN: L65910MH1986PLC165645

Tel.: +91 22 4158 4000, Fax: +91 22 2490 5125

Hosting of Annual Report and Abridged Summary thereof for the Schemes of Motilal Oswal

Notice is hereby given to all the Investors of the Schemes of Motilal Oswal Mutual Fund (MOMF) that in accordance with the Regulation 56(1) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI circular dated June 5, 2018, the Annual report of the Schemes of MOMF for period ended March 31, 2023 have been hosted on the website of MOMF i.e. www.motilaloswalmf.com and AMFI Website http://www.amfiindia.com.

Investors can request for physical or electronic copy of Annual report or abridged summary thereof through

any of the following modes / options: Send us an email at amc@motilaloswal.com from the registered email id; or

TG - 500 032. or by emailing at legal.compliance@kfintech.com.

2. Contact us on the Toll free no: +91-8108622222, +91-22-40548002; or Written request can be sent at KFin Technologies Limited (Unit - Motilal Oswal Mutual Fund) Selenium, Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi

Investors are requested to kindly take note of the above. For Motilal Oswal Asset Management Company Limited (Investment Manager for Motilal Oswal Mutual Fund)

Place: Mumbai Navin Agarwal Date : July 31, 2023 Managing Director & Chief Executive Officer MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS.

READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Notes:

issued by the Securities and Exchange Boardof India ("SEBI")

Mutual Fund (MOMF)

TERA SOFTWARE LIMITED Regd. Office: #8-2-293/82/A/1107, Plot No 1107, Road No 55, Jubilee Hills, Hyderabad-33.

TERA SOFT CIN: L72200TG1994PLC018391. Website: www.terasoftware.com. Tel: 040 2354 7447 STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2023 Rupees in Lakhs

SI.	Doublesslave		For the Year Ended		
No	Particulars	30-06-2023 Unaudited	31-03-2023 Audited	30-06-2022 Unaudited	31-03-2023 Audited
1	Total Income from operations	2,052.47	4,664.49	2,899.29	15,595.96
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and Extraordinary items)	190.86	354.59	(42.41)	865.56
3	Net Profit / (Loss) for the period (before tax after Exceptional and Extraordinary items)	190.86	354.59	(42.41)	865.56
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	79.21	350.15	(59.37)	346.58
5	Total Comprehensive income for the period {Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other comprehensive income (aftertax)}	115.09	(3.65)	-	(3.65)
6	Equity Share Capital	1,251.19	1,251.19	1,251.19	1,251.19
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of current year)				9,535.65
	Earning Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
8	Basic	0.63	2.80	(0.47)	2.77
	Diluted	0.63	2.80	(0.47)	2 77

1 The above financial results for the quarter ended 30th June, 2023 have been reviewed by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 31st July, 2023 This statement is as per regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015. These financials results of the Company were prepared in accordance with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 ("the act") read with relevant rules issued there under ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India and guidelines

Orders issued by GST Department: Disputed GST Liability for Rs. 91.29 Lakhs between GSTR 3B Vs 2B during the period from Sept-2019 to March-2020 including interest for which Company filed appeals/Writ-petitions before Appellate Joint Commissioner(ST), Tirupathi/Honorable High Court of Andhra Pradesh, Amaravathi,

Due to a revision in basic salary during the estimation of Gratuity liability for the Quarter, there has been a reduction of gratuity liability by Rs.

5 Orders issued by Assistant Commissioner of Central Tax and Central Excise, Amaravathi CGST Divisional Office, Vijayawada: Disputed Transitional Credit including interest and Penalty of Rs. 141.67 Lakhs for which Company filed an appeal before Joint/Additional Commissioner of Central Tax (Appeals), Guntur, Andhra Pradesh,

6 Corresponding quarter/Year figures have been re-grouped /re-classified wherever necessary to confirm to the classification of the current period. for TERA SOFTWARE LIMITED Place: Hyderabad Date: 31.07.2023

financiale

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलय (आदेश 5 नियम 20) समक्ष न्यायालय श्री इन्द्र प्रीत सिंह जोश पीवासीन

अधिकारी, कमर्शियल कोर्ट-१, जिला पंचायत भवन, निकट कोतवाली कासना, गौतम बुद्ध नगर। मूल वाद संख्या 361/2022 केनरा बैंक, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के तहत गटित एक कॉर्पेरिट निकाय है, जिसका मुख्यालय 112, जे सी

रोड़, बैंगलोर, कर्णाटक में है और इसकी शाखा राकेश

मार्ग, गाजियाबाद में है।

श्रीमती पिंकी राजपुत पत्नी श्री राजेंदर कुमार निवासी मकान संख्या 240 ए, राम नगर,

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। 2. श्रीमती धर्मवती यादव पत्नी श्री जगवीर सिंह निवासी जे 1, तृतीय तल, राकेश मार्ग, गानियाबाद।

Whereas it has been proved to the atisfaction of this court that you, the ccused above named cannot be served हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश वादत the ordinary way of service. Hence, this धनवसूली अंकन 3,91,457.11/- रूपये दायर roclamation under section 82 CRPC Is किया है लिहाजा आपको हक्स होता है की आप ereby issued against you with a direction that you should appear personally before बतारीख 10.10.2023 बवक्त 10 बजे दिन के this court on 02-09-2023 at 10:00 a.m. or असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमे के हालात within 30 days from the date of publication से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और कुल of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed उमूरात अहम् कुतलिल्लका मुकदमा का जवाब दे सके above the above said case will be heard या जिसके साथ कोई और शख्स हो की जो जवाब and determined as per law, in your ऐसे सवालात दे सके हाजिर हो और जवाबदेही दावा absence, given under my hand and the की करे, और आपका लाजिम है की उसी रोज अपने seal of the court, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_n जमला दस्तावेज पेश करें. जिन पर आप बताईद otice&district=Ludhiana JMIC Ludhiana अपनी जवाबदेही के इस्तदमाल करना चाहते हों। आपको इतिल्ला दी जाती है अगर बरोज मजकर आप

हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आप मसमुआ और फैसला होगा। बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 26.07.2023 जारी किया गया। आदेशअनुसार क्जरियल कोर्ट, कासमा, गौतम बद्र नगर।

सम्मन वास्ते करारवाद उम्रूर तनकीह तलय (आदेश 5 नियम 20) समक्ष न्यायालय श्री इन्द्र प्रीत सिंह जोश पीवासीन अधिकारी, कमर्शियल कोर्ट-1, जिला पंचायत भवन, निकट कोतवाली कासना, गौतम बुद्ध नगर। मूल वाद संख्या 363/2022

केनरा बैंक, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित एक कॉर्पोरेट निकाय है, जिसका मुख्यालय 112, जे सी रोड, बैंगलोर, कर्णाटक में है और इसकी शाखा राकेश मार्ग, माजियाबाद में है।

श्री योगेंदर कुमार पुत्र श्री राम फूल सिंह निवासी मकान संख्या 284, हींडा शोरूम के पीछे, नई पंचवटी कॉलोनी, जी टी रोड, गाजियाबाद मकान संख्या ५७७, छजजू क्वार्टर, भाटिया मोइ.

हरमाह वादी ने आपके नाम एक नालिश वाबत धनवसुली अंकन 6,16,092.43/- रूपये दायर किया है लिहाजा आपको हक्म होता है की आप बतारीख 10,10,2023 बवक्त 10 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमे के हालात से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और कुल उमूरात अहम् कुतलिल्लका मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो की जो जवाब ऐसे सवालात दे सके हाजिर हो और जवाबदेही दावा की करे. और आपका लाजिम है की उसी रोज अपने जमला दस्तावेज पेश करें, जिन पर आप बताईद अपनी जवाबदेही के इस्तदमाल करना चाहते हों। आपको इतिल्ला दी जाती है अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आप मसमुआ और फैसला होगा।

ववक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 26.07.2023 जारी किया गया। आदेशअनुसार कमर्शियल कोर्ट, कासना, गौतम बद्र नगर।

LUMAX ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1981PLC012804

पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल, हरबंश भवन—II, कमर्शियल कॉम्पलेक्स,

नांगल राया, नई दिल्ली-110046 दूरभाष : 011-49857832

वेबसाइटः www.lumaxworld.in/lumaxindustries, इमेलः lumaxshare@lumaxmail.com

ल्युमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 42वीं वार्षिक आम बैठक

का नोटिस और ई-वोटिंग सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") और भारतीय

प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी परिपत्रों के साथ पठित कंपनी

अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों की अनुपालना में ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

("कंपनी") के सदस्यों की 42वीं (बयालिसवीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के

नोटिस में यथा निर्धारित बिज़नेस के संचालन के लिए, संयुक्त स्थल पर सदस्यों की

भौतिक उपस्थिति के बगैर, वीडियो कान्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य श्रव्य-दृश्य

माध्यमों (''ओएवीएम'') के जरिए, मंगलवार, 22 अगस्त, 2023 को अपराहन

10.30 बजे (भारतीय मानक समय) आयोजित की जाएगी।

Criminal Courts, Ludhiana Criminal Courts, Ludhiana n The Court Of Ms. Shweta Dass JMIC The Court Of Ms. Shweta Dass JMIC

138 of N.I act

M/s Bold Fashions

देनदार का नाम

की मात्रा और मुल्य

के साथ), लेनदारों की सूची, प्रक्रिया की बाद की लि

12. अनंतिम सूची पर आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि 31–08–2023

DK IAIN

10. रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि

13. ईओआई जमा करने के लिए प्रक्रिया ईमेल आईडी

करने की तिथिः

दिनांकः 01.08.2023

CNR NO: PBLD03-047425-2020 PESHI: 02-09-2023 publication notice for proclamation under section 82 CR.PC Complaint R/w sec-

M/s Bold Fashions M/s Sri Venkateshwara Industries M/s Sri Venkateshwara Industries Notice To: 1. M/s Sri Venkateshwara Notice To: 1. M/s Sri Venkateshwara Industries, House No 10-05-825/4/b1, Industries, House No 10-05-825/4/b1. Street No.1, Indiralaxmi Nagar, Opposite Street No.1, Indiralaxmi Nagar, Opposite M.r.o Secunderabad, Telengana, M.r.o Secunderabad, Telengana, Through Its Proprietor/ Authorize Through Its Proprietor/ Authorize Signatory, 2. Sri Venkateswara Prasad, Signatory. 2. Sri Venkateswara Prasad, Proprietor/ Authorize Signatory M/s Sri Proprietor/ Authorize Signatory M/s Sri Venkateswara Industries, House No 10-Venkateswara Industries, House No 10-5-825/4/b1, Street No.1, Indiralaxmi Nagar, Opposite M.r.o Secunderabad,

प्रपत्र–जी

ज्वेल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड,

के लिए रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

(कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36ए(1) के तहत

घटनाओं के लिए प्रासंगिक तिथियों सहित अधिक कृपया jeweloverseas@truproinsolvency.com विवरण यहां उपलब्ध हैं:

5-825/4/b1, Street No.1, Indiralaxmi Nagar, Opposite M.r.o Secunderabad, Telengana Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC Is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 02-09-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, given under my hand and the seal of the court, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_n

न्वे**ल ओवरसीज प्राइवेट लि**मिटे**ड** तीआईएनः U52100DL2010PTC201839

लिए पात्रता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए कपर

jeweloverseas@truproinsolvency.com पर ई-मेल

अंतरिम समाधान पेशेवर

मोबाइल नं.: 8053924906

ज्वेल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में

एएफए नं.: | |1 / 13816 / 02 / 111023 / 104584

एएफए : 11-अक्टूबर-23 तक वैध है

आईबीबीआई रजि. ईमेल आईडीः veenudrall25@gmail.com

आईबीबीआई संचार ईमेल आईडी: jeweloverseas@truproinsolvency.com

संचार का पताः रु 581, चौथी मंजिल, सेक्टर 27, गुरुग्राम–122009, हरियाणा

दिल्ली-110040 भारत

otice&district=Ludhiana JMIC Ludhiana

CNR NO: PBLD03-047427-2020

PESHI: 02-09-2023

section 82 CR.PC Complaint R/w sec-

138 of N.I act

sublication notice for proclamation under

क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कब्जा नोटिस ((परिशिष्ट IV) नियम 8(3))

जबिक, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002(2002 का 54) (इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा जाएगा) के तहत क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (क्लिक्स), राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम के तहत एक हाउसिंग फाइनेंस बैंक कंपनी

है, जिसका पंजीकृत कार्यालय अग्रवाल कॉर्पोरेट टॉवर, प्लॉट नंबर 23, 5वीं मंजिल, गोविंद लाल सिक्क मार्ग, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली–110008 है, के तहत अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ३ के साथ पठित, अधिनियम की धारा १३(२) के तहत प्रदत्त शक्तिये का प्रयोग करते हुए, दिनांक 16 अगस्त, 2023 को एक मांग नोटिस जारी कर 1. अनीशा मेहरा, 2 सागर मेहरा, 2. पवन प्रकाश मेहरा, सभी निवासी :मकान नंबर डी-22, सेक्टर-41, पुलिस स्टेशन 39 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 से नोटिस में उल्लिखित राशि यानी 12-08-2021 के अनुसार रु. 36,96,415 (रुपए छत्तीस लाख छियानवे हजार चार सौ पंद्रह मात्र) के साथ लागू ब्याज और अन्य शुल्कों का भुगतान करने के लिए कहा था। ऋणकर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, ऋणकर्ता और आम जनता को एतद्दवार

नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पिठत, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 जुलाई 2023 को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणकर्ता और आम जनता को एतद्दवारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति क लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन करने पर क्लिक्स को 12-08-2021 के अनुसार रु.36,96,415 (रुपए छत्तीस लाख छियानवे हजार चार सौ पंद्रह मात्र) की एक राशि के साथ

लागू ब्याज और अन्य शुल्कों का भूगतान करना होगा। प्रतिभृति संपत्तियों को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप-धार (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण इस प्रकार है: पहली मंजिल, आवासीय फ्लैट/ आवास इकाई, नंबर 106, प्लॉट नंबर जीएच–07बी, टावर–डी सेक्टर-01. ग्रेटर नोएडा. जिला गौतमबद्धनगर, उत्तर प्रदेश में स्थित संपत्ति के सभी टकडे और अंश स्थानः ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यू.पी. प्राधिकृत अधिकारी, क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दिनांकः 31-07-2023

ऋण वसूली न्यायाधिकरण देहरादून भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (वित्त सेवा विभाग) द्वितीय तल, पारस टावर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उ.ख. 248171

प्रकाशन सूचना

2023 की ओ.ए. सं. 247 ऋण वस्ली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत सम्मन, ऋण वस्ली अधिकरण के नियम 5 का उप नियम के (प्रक्रिया)

नियम (2ए) के साथ के साथ पढ़ित एवं समय-समय पर 1993 संशोधित डायरी सं. 701/2023 दिनांक : 27.07.2023 इण्डियन बैंक बनाम श्री दयावीर सिंह व अन्य

1- श्री दयावीर सिंह पुत्र श्री मुनेश्वर सिंह, निवासी मकान सं. बी2/160, आशियाना फेस-।।,

2- श्रीमती नीता ठाकुर पत्नी श्री दयावीर सिंह निवासी मकान सं. बी2/160, आशियाना फेस-।।,

जबिक उपर्युक्त आवेदक बैंक ने 21,01,541/- रुपये के ऋण की वसली के लिए आपके

खिलाफ 2023 का ओ ए नंबर 247 दायर किया है। जिसमें माननीय न्यायाधिकरण से ऋण वसली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के तहत समन/नोटिस जारी करने की मांग की और 26.07.2023 को रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया

जबिक, टिब्युनल की संतुष्टि के अनुसार यह दिखाया गया है कि सामान्य तरीके से आपकी सुचित करना संभव नहीं है। इसलिए, इस प्रकाशन के माध्यम से दिया गया है जिसमें आपको 05.09.2023 को ट्रिब्यूनल के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत अधिकृत एजेंट या कानूनी व्यवसायी के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, आपको यह कारण बताना होगा कि ओए में मांगी गई राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए और अपने बचाव पक्ष में सभी दस्तावेजों तथा शपथ पत्र, यदि कोई हो, दाखिल करना होगा और सभी दस्तावेजों और हलफनामों को प्रस्तुत करना होगा। इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत अधिकृत एजेंट या कानूनी व्यवसायी के माध्यम से इस ट्रिब्यूनल में अपना बचाव या मुजरा करने का दावा, प्रतिदावा करें।

ध्यान रखें कि ट्रिब्यूनल के समक्ष निर्दिष्ट दिन और समय पर आपकी उपस्थिति में चूक होने की स्थिति में मामले की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार

वसुली अधिकरण, देहरादून

RELAXO

RELAXO FOOTWEARS LIMITED Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector -3,

Rohini, Delhi - 110085. Phones: 91-11-46800600, 46800700. Fax No: 91-11-46800692, E-mail: rfl@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com CIN No:- L74899DL1984PLC019097

39वीं वार्षिक आम बैठक, ई—मतदान एवं बुक क्लोज़र की सूचना

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गुरुवार, 24 अगरत, 2023 को दिन के 10:30 बजे आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में दिनांक 24 जुलाई, 2023 की एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को लेन-देन करने के लिए ("अधिनियम"), उसके तहत बनाए गए नियम के सामान्य परिपत्र संख्या 20 / 2020 दिनांक 05 मई 2020, कॉर्पोरेट द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 10 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के साथ पढ़ा जाए और परिपन्न संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 को SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 के साथ पढ़ा जाए। दिनांक 5 जनवरी, 2023 भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("SEBI") द्वारा जारी किया गया।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में 39वीं एजीएम आहुत करने की सूचना के साथ, वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट में अन्य विषयों के साथ 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 29 जुलाई, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी गई जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स / कम्पनी के रजिस्ट्रॉर और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड ("केफिन") में पंजीकृत है। एजीएम सुचना की वास्तविक प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता में अधिकारियों ने उपरोक्त परिपत्रों के माध्यम से छट दे दी है।

उपरोक्त डॉक्युमेंट कम्पनी की वेबसाइट www.relaxofootwear.com और स्टॉक एक्सचेंजों, यानी, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और आरटीए की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com. पर भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, कथित अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के उद्देश्य से एजीएम में उपस्थित (सदस्यों के लॉगिन के माध्यम से) सदस्यों की गणना की जाएगी। चूँकि एजीएम का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से होगा इसलिए प्रॉक्सी की सविधा नहीं उपलब्ध होगी।

सदस्य अपने ई—मतदान लॉगइन क्रेडेंशियल्स के इस्तेमाल के द्वारा <u>https://emeetings.KFintech.com</u> पर वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे। सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया से बैठक आरंभ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद तक एजीएम में भाग ले सकते हैं।

समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ("एसएस–2") भारत के कंपनी सचिवों और सेबी (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") के विनियम 44 के उपरोक्त परिपत्रों के साथ, कंपनी अपने सदस्यों को व्यवसायों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ("रिमोट ई-वोटिंग") द्वारा एजीएम की सूचना में निर्धारित । इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम ("इस्टापोल") में भी उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य इंस्टापोल के माध्यम से एजीएम में मतदान कर सकेंगे। कंपनी ने एजीएम के लिए रिमोट ई-वोटिंग और इंस्टापोल सुविधाएं प्रदान करने के लिए केफिन की सेवाएं ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग / इंस्टापोल के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम, दिनांक 24 जुलाई, 2023 के नोटिस में दिए गए हैं।

सदस्यों से निवेदन है कि निम्नलिखित का ध्यान में रखें

- क) रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 21 अगस्त, 2023 के प्रात: 9 बजे (आईएसटी) आरंभ होगी और बुधवार, 23 अगस्त, 2023 की शाम 5 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके बाद केफिन मतदान के ई-वोटिंग मॉड्यल को बंद कर देंगी और कथित तिथि और समय के बाद सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों को किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के बाद बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ख) सदस्यों को वीरवार 17 अगस्त, 2023 ("कट-ऑफ तिथि") को कम्पनी की चुकता इक्विटी शेयर पंजी में उनके शेयरों के अनुपात में मताधिकार (रिमोट ई-वोटिंग / इंस्टापोल माध्यम से) उपलब्ध हॉंगे। कट-ऑफ तिथि में जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर या लाभ के हकदार लोगों के लिए तैयार केफिन / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रजिस्टर में दर्ज होगा, उसे एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग या इंस्टापोल, जैसी भी रिथति हो, उससे मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होगा। कट—ऑफ की तिथि, यानी, वीरवार 17 अगस्त, 2023 को जो भी व्यक्त सदस्य नहीं होंगे, उनके लिए एजीएम का यह नोटिस केवल सुचनार्थ है।
- कोई भी व्यक्ति, जोकि सूचना भेजने के बाद कम्पनी के शेयर लेता है और कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि, अर्थात वीरवार 17 अगस्त, 2023 को शेयरधारक है evoting@kfintech.com पर निवेदन कर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है या दरभाष सं. 040-6716 2222 संपर्क या केफिन के टॉल फ्री नं. 1800-3454-001 या कम्पनी से cs@relaxofootwear.com पर संपर्के कर सकता है। एजीएम की 24 जुलाई, 2023 दिनांकित सुबना में भी युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख है। हालांकि, यदि कोई सदस्य पहले से ही रिमोट ई-बोटिंग के लिए केफिन में पंजीकृत है तो वह अपने मौजूदा लॉगइन आईडी और पासवर्ड से लोगिन कर सकता / सकती है।
- घ) कम्पनी एजीएम के दौरान ई-बोटिंग, अर्थात, इंस्टापोल की सुविधा देगी, जोकि वीसी / ओवीएएम प्लेटफॉर्म का एकीकृत हिस्सा है और इसके लिए किसी अलग लॉगइन की आवश्यकता नहीं है। इंस्टापोल से मतदान करने की सुविधा वीडियो कॉन्फरेंसिंग स्क्रीन पर उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में इंस्टापोल की घोषणा होते ही इसे एक्टिवेट कर दिया जाएगा।
- कोई सदस्य केवल एक माध्यम, अर्थात, रिमोट ई—वोटिंग या इंस्टापोल के द्वारा मतदान कर सकता है। यदि कोई सदस्य दोनों माध्यमों से मतदान करता है तो रिमोट ई-वोटिंग से किया गया मतदान मान्य होगा और इंस्टापोल को अमान्य करार दिया जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग से मतदान करने वाले सदस्य भी बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें बैठक में दोबारा मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।
- च) सदस्यों से निवेदन है कि वे अपना ई-मेल पता इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंटस) के पास और भौतिक शेयरों की रिध्यति में https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर क्लिक कर पंजीकृत करें या आर टी ए को प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ फॉर्म ISR 1 की भौतिक प्रति निम्नलिखित पते पर भेजें, केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, युनिट रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट 31-32, फाइनॅशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद -500032 (इण्डिया), या ई मेल करें einward.ris@kfintech.com
- छ) सदस्य, जोकि एजीएम के दौरान अपने विचार रखने या प्रश्न पूछने के इच्छुक हैं, https://emeetings.Kfintech.com पर लॉगइन कर अपना रजिस्ट्रेशन करें और लॉग इन करने के बाद स्क्रीन पर उपलब्ध "स्पीकर रजिस्ट्रेशन" के विकल्प पर क्लिक करें। स्पीकर रजिस्ट्रेशन शनिवार 19 अगस्त, 2023 (प्रात: 9 बजे आईएसटी) से सोमवार 21 अगस्त, 2023 (शाम 5 बजे आईएसटी) तक खुला रहेगा । स्पीकर के रूप में खद को पंजीकृत करने वाले सदस्य मात्र एजीएम के दौरान अपने विचार रख सकते या प्रश्न पृछ सकते हैं। कम्पनी को एजीएम के सचारू संचालन के लिए उपयक्त समय की उपलब्धता के आधार पर प्रश्नों की संख्या और स्पीकरों की संख्या सीमित रखने का

रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निगरानी और निष्पक्ष और पारदर्शी इंस्टापोल सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल ने प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव, श्री. बलदेव सिंह काश्तवाल (FCS No. 3616, C. P. No. 3169) को स्कूटनाइजर नियुक्त किया है।

रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में इंस्टापोल के परिणाम एजीएम के समापन के बाद दो कार्य दिवस में घोषित कर दिए जाएंगे। मतदान के परिणाम समेत स्कूटनाइजर की रिपोर्ट की घोषणा प्रबंध निदेशक या बोर्ड से विधिवत अधिकृत कम्पनी के किसी अन्य निदेशक / व्यक्ति द्वारा पंजीकृत कार्यालय में की जाएगी और इनका प्रकाशन कम्पनी की वेबसाइट www.relaxofootwear.com और स्टॉक एक्सचेंजों, यानी, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com और आरटीए की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक मतदान और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने संबंधी किसी शिकायत/प्रश्न/स्पष्टीकरण हेत् सदस्य शेयरधारकों के लिए उपलब्ध सहायता एवं अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और 'ई—वोटिंग / वीसी / ओएवीएम यूजर मैन्युअल देख सकते हैं, जोकि https://evoting.kfintech.com से डानलोड कर सकते हैं और / या अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं – श्री शंकर गोकावरप्प, वरिष्ठ प्रबंधक – कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, युनिटः रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाछीबावली, फाइनैशियल डिस्टिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 या दरभाष सं. 040-6716 2222 या केफिन को टॉल फ्री नं. 1800-3454-001 पर कॉल करें। कम्पनी के सदस्य श्री, अंकित जैन, कम्पनी सचिव, रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड, अग्रवाल सिटी स्क्वेयर, प्लॉट नं. 10, मंगलम प्लेस, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085, दुरमाष संख्या 011-46800600 से

संपर्क कर सकते हैं और cs@relaxofootwear.com पर ई-मेल लिख सकते हैं। **बुक क्लोज़र**: यह भी सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 91 के साथ पठित उसके तहत बने नियमों और लिस्टिंग रेगुलेशन के रेगुलेशन 42 के अनुसार, 39वीं एजीएम और सदस्यों द्वारा घोषित वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लाभांश का भूगतान (यदि कोई हों तो) के उद्देश्य से सदस्यों का रंजिस्टर और कम्पनी के शेयर ट्रांसफर बुक शुक्रवार, 18 अगस्त, 2023 से बुधवार, 23 अगस्त, 2023 (दोनों दिन शामिल)

> निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड

Date: July 31, 2023

the United States.

अंकित जैन कम्पनी सचिव और अनुपालन अधिकारी ऐक्सिस बैंक लि0 कब्जे की नोटिस

रिटेल एसेट्स सेटर: प्रथम तल, जी–4/5 बी सेटर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ– 226010 रजिस्टर्ड ऑफिसः (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद—380006 जबिक, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ

पिठत धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टेगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह—ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

	(Property of the Control of the Cont	
खातेदार / गारन्टरों का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस के अनु सार बकाया राशि मांग सूचना की तिशि कब्जे की तिथि
मोहम्मद असीम (ऋणी) पुत्र मोहम्मद मोमिन, श्रीमती अफरोज (सह—ऋणी) पत्नी मोहम्मद असीम दोनों का पताः1— म0 नं0 के—20—21 कबीरनगर, भेंसिया ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद उ०प्र0—244001, पताः2— मं. नं. ख—02, कबीर नगर योजना भेंसिया, रामपुर रोड प्रेम वाटर लैंड के निकट मुरादाबाद, पिन—244001, तेजिब पुत्र मोमिन पताः म0 नं0 के—20—21 कबीरनगर, भेंसिया ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद उ०प्र0—244001	स्थित कबीर नगर, भैंसिया, मुरादाबाद, एरियाः 54.55 वर्ग मी., चौहद्दी:— पूर्व— 5.65 मी. चौड़ा रोड, पश्चिम— ई.डब्ल्यू.एस मकान नं. ख—11, उत्तर— ई.डब्ल्यू.एस मकान नं. ख—03, दक्षिण— ई.डब्ल्यू.एस मकान नं. ख—01	रू० 9,53,151.00, रू० 5,79,496.00, रू० 5,49,318.00 दि. 23.01.2023 तव + देय ब्याज एवं अन्य खर्च 23.01.2021 26.07.2023
श्री सोम पाल गुप्ता (ऋणी) पुत्र श्री पोशाकी लाल गुप्ता, श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता (सह—ऋणी) पत्नी श्री सोम पाल गुप्ता, दोनो का पता मकान नं0 22, ऑफिसर्स एन्क्लेव विस्तार, कर्मचारी नगर, सैंधपुर हॉकिंग्स, इज्जत नगर, बरेली — 243122	भूमि / सम्पत्ति स्थित मकान नं0 22, ऑफिसर्स एन्क्लेव विस्तार, सैंधपुर हॉकिंग्स, इज्जत नगर, बरेली — 243122, एरियाः 87.79 वर्ग मी., चौहद्दीः पूर्वः मकान नं0 20, पश्चिमः रास्ता 30 फीट चौड़ा, उत्तरः एम.पी. सिंह का मकान नं0 21, दक्षिणः शर्मा जी का मकान।	रू0 2,13,974.00, रू0 6,77,835.00 दि. 22.08.2022 तव + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे 23.08.2022 28.07.2023
ताः 1. ग्राम हसनपुर, सरकारी स्कूल के पास, शाहजहाँपुर —2 2305, पताः 2. जिला कॉ—आर्डिनेटर, मै अस्सयोर्ड एसोसिएट 10 लि0, सी/ओ 5 तिविरी नाथ रोड़, इज्जत नगर, बरेली — 43122, पताः 3. मकान नं0 93 गाटा नं0 219 का भाग, निजी ऑट नं0 4 एवं 5, नवादा शेखान अन्दर चुंगी, पीलीभीत रोड़ रेली — 243001, श्रीमती सपन लता (सह—ऋणी) पत्नी श्री विपन कुमार सिंह पताः 1. ग्राम हसनपुर, सरकारी स्कूल के ास, शाहजहाँपुर — 242305, पताः 2. मकान नं0 93 गाटा नं0 19 का भाग, निजी प्लाट नं0 4 एवं 5, नवादा शेखान, अन्दर गुंगी, पीलीभीत रोड़ बरेली — 243001	भूमि/सम्पत्ति स्थित मकान नं0 93 गाटा नं0 219 का भाग, निजी प्लाट नं0 4 एवं 5, नवादा शेखान, अन्दर चुंगी, पीलीभीत रोड़ बरेली — 243001, एरियाः 104.51 वर्ग मीटर, चौहद्दीः पूर्वः रास्ता उसके बाद कमल यादव का मकान, पश्चिमः अन्य का मकान, उत्तरः अशोक कुमार सिंह का प्लॉट, दक्षिणः श्रीमती शशि चौधरी का मकान।	दि. 23.09.2022 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे 23.09.2022 28.07.2023
दिनांकः 01.08.2023	प्राधिकृत अधिक	। ारी, एक्सिस बैंक लि

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of offer dated 30th June, 2023 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI")

BANDARAM PHARMA PACKTECH LIMITED (Corporate Identity Number: L93090KA1993PLC159827)

Our Company, Bandaram Pharma Packtech Limited, (formerly known as Shiva Medicare Limited) was incorporated as a public limited company under the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated December 2, 1991 with Registrar of Companies ("RoC") Delhi & Haryana, bearing registration number 55-46608 of 1991-92 and received a Certificate for Commencement of Business on December 23, 1991 by RoC Delhi & Haryana. Thereafter, our Company's place of Registered Office was changed from Delhi to Tamil Nadu on June 1 1993 which was certified by RoC Madras on August 5, 1993. Thereafter, our Company changed its place of Registered Office from Tamil Nadu to Delhi on January 1, 2009 by RoC of Delhi & Haryana. On June 5, 2013 our Company changed its place of Registered Office from Delhi to Andhra Pradesh, certified by RoC Andhra Pradesh with its Registered Office at H. No. 8-2-676/A/A/A/1 & 2, Road No. 13, Banjara Hills, Hyderabad – 500 034, Telangana. Afterwards, a corporate creditor filed a petition under Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 vide application No. CP(IB)NO.27/7/HDB/2019 against Shiva Medicare Limited and the same was admitted by the Hon'ble NCLT (Hyderabad Bench), due to which our Company underwent a Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP). As a part of the CIRP proceedings, Shri B. Munirathnam Reddy's Resolution Plan was admitted by the Committee of Creditors on August 5, 2021 and subsequently vide NCLT (Hyderabad Bench) order in IA No. 534/2021 dated February 7, 2022 the said Company was acquired by Shri B. Munirathnam Reddy ("Successful Resolution Applicant" or "SRA"). As a part of the Resolution Plan submitted by the SRA, the said Company's name was changed to Bandaram Pharma Packtech Limited ("Our Company" or "Issuer Company") vide Fresh Certificate of Incorporation issued by Registrar of Companies, Hyderabad on March 16, 2022. Subsequently, the Registered Office of our Company was changed to 601, 5th Floor, Oxford Towers, Opp to Leela Palace Hotel, Old Airport Road, Kodihalli, Bengaluru, Karnataka, 560008 and the same was certified by RoC Bangalore on April 8, 2022.

Registered Office: 601, 5th Floor, Oxford Towers, Opp to Leela Palace Hotel, Old Airport Road, Kodihalli, Bengaluru, Karnataka, 560008 Telephone: +91 98865 31601 | Email: infoshivamedicare@gmail.com | Website: www.bandaram.com; Contact Person: Mr. Harish Sharma, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: B. MUNIRATHNAM REDDY, B. DEEPAK REDDY, B. PREM SAI REDDY. B.SATYAVATHI, M. SEETHARAMA REDDY, M. SUKUMARI AND L. LALANTHIKA

SSUE OF UPTO 90.00.000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT PAR AGGREGATING UPTO ₹ 900.00 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 3 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 FULLY PAID-UP EQUITY SHARE HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE THAT IS JUNE 30, 2023 PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 134 OF THIS LETTER OF OFFER

The Board of Directors of our Company thanks all Investors for their response to the Issue, which-opened for subscription on Wednesday July 12, 2023, and closed on Thursday, July 20, 2023, and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Monday, July 17, 2023. Out of the total 726 Applications for 1,33,40,105 Rights Equity Shares, 535 Applications for 2,51,150 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received was 191 for 1,30,88,214 Rights Equity Shares, which was 145.42% of the number of Rights Equity Shares Allotted under the Issue. In accordance with the Letter of Offer and the Basis of Allotment submitted to BSE Limited on July 26, 2023 and finalized in consultation with BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange, the Lead Manager to the Issue and the Registrar to the issue on July 27, 2023. The Rights Issue Committee of the Company, pursuant to the delegation of authority to the Rights issue Committee by the Board of Directors at their meeting held on July 27. 2023, have, approved the allotment of 90,00,000 Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid Applications after the rejection of bids received from non-Eligible Shareholders and technical rejections have been considered for Allotment.

The breakup of valid applications received (after the rejection of bids received from non-Eligible Shareholders technical rejections)

is given below:									
Category	No. Of applications received	No. Of Rights Equity shares accepted and allotted against Entitlements(A)	No. Of Rights Equity shares accepted and allotted against Additional Rights Equity shares applied (B)	Total Rights Equity shares accepted and allotted (A+B)					
Shareholders	72	85,61,816	1,70,834	87,32,650					
Renounces	119	2,67,350		2,67,350					
Total	191	88,29,166	1,70,834	90,00,000					

2. Information regarding total Applications received:

Category	Application	is neceived	Equity	snares appned to	No.	Equi	ly anares anotter	1
	Number	%	Number	Value (in ₹)	%	Number	Value (in ₹)	%
Shareholders	72	9.92	1,00,99,855	10,09,98,550	75.71	87,32,650	8,73,26,500	97.03
Renounces	654	90.08	32,40,250	3,24,02,500	24.29	2,67,350	26,73,500	2.97
Total	726	100	1,33,40,105	13,34,01,050	100	90,00,000	9,00,00,000	100

has been completed on July 28, 2023, The Instructions for unblocking funds in case of ASBA Applications were issued to SCSBs on July 27.

2023. The listing application was executed with BSE Limited ("BSE") (referred to as "Stock Exchange") on July 27, 2023, The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the Allottees in respect of Allotment in dematerialised form has been completed on July 29. 2023. For further details, see "Terns of the Issue - Allotment Advice or Refund/ Unblocking of ASBA Accounts" on page 159 of the Letter of Offer. The trading in Right Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on Stock Exchanges upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or before 02, August, 2023. Further, in accordance with the SEBI master circular bearing reference SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/00094 dated June 21, 2023, the request for extinguishment of Rights Entitlements has been sent to CDSL. & NDSL on July 28, 2023

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALIZED FORM. DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: The Letter of Offer will not be filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of issue is below ₹5000.00 lakhs. However, the Letter of Offer will be filed with SEBI for information and dissemination for further information refer the heading "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of SEBI" on page 130 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not for any reason be deemed or construed that this letter of offer has been cleared or approved by the Exchange. Every person who desires to apply for or otherwise acquires any securities of this Company may do so pursuant to independent inquiry, investigation and analysis and shall not have any claim against the Exchange whatsoever by reason of any loss which may be suffered by such person consequent to or in connection with such subscription/acquisition whether by reason of anything stated or omitted to be stated herein or for any other reason whatsoever. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of disclaimer clause of the BSE under the heading the "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 130 of the Letter of Offer.

Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer. THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE COMPANY'S BUSINESS PROSPECTUS

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
BajajCapital BAJAJ CAPITAL LIMITED Mezzanine Floor, Bajaj House, 97, Nehru Place, New Delhi -110019, India. Telephone: +91 11 - 41693000, E-mail: info@bajajacapital.com, Investor grievance:info@bajajcapital.com, Website: www.bajajcapital.com.	CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED Subramanian Building, 1 Club House Road, Chennai - 600 002, Tamil Nadu, India. Telephone: +91-44-40020700(5 Lines), E-mail: priya@cameoindia.com; investor@cameoindia.com, SEBI Registration Number: INR000003753,	BANDARAM Bandaram Pharma Packtech Limited Harish Sharma, 601,5th Floor, Oxford Towers, Opp. to Leela Palace Hotel, Old Airport Road, Kodihalli, Bengaluru, Karnataka - 560008, India Telephone: +91 9886531601, E-mail: info.bandaram@gmail.com,
Contact Person: Mr. P. Balraj, SEBI Registration Number: INM000010544, Validity of Registration: Permanent	Website: www.cameoindia.com, Contact Person: Ms. K. Sreepriya	infoshivamedicare@gmail.com, Website: www.bandaram.com

Investors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and compliance officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs (in case of ASBA process), giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked (in case of ASBA process), ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process). For details on the ASBA process, see "Terms of the Issue" beginning at page no. 134 of the Letter of Offer.

For Bandaram Pharma Packtech Limited

Harish Sharma Company Secretary and Compliance Officer

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and Stock Exchange. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com and the website of the Lead Manager at wwwbajajcapital.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 20 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in

स्थान : गुरूग्राम तिथि : 31 जुलाई, 2023

कंपनी ने 42वीं एजीएम का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सोमवार, 31 जुलाई, 2023 को उन सदस्यों को प्रेषित किया है जिनके ई–मेल पते डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स ("**डीपी"**)/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") अर्थात केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड, / कंपनी के

सदस्य नोट कर लें कि उपरोक्त नोटिस और वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट अर्थात https://www.lumaxworld.in/lumaxindustries/ स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com, पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, समय-समय पर यथा संशोधित, के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 108 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधान और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी आम बैठक पर सचिवालय मानदंडों (एसएस-2) के अनुसरण में, कंपनी एजीएम बुलाए जाने के नोटिस में निर्धारित सभी संकल्पों पर नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड ("**एनएसडीएल"**) द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली ("**रिमोट ई—वोटिंग**") का प्रयोग करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सभी सदस्यों को सुविधा प्रदान कर रही है। इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया / अनुदेश एजीएम के नोटिस की टिप्पणियों में उपलब्ध कराए

कंपनी के सदस्य, जो कि कट ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 16 अगस्त, 2023 को भौतिक स्वरूप में अथवा डीमैटीरियलाइज्ड रूप में शेयर धारण कर रहे हैं, अपने वोट इलेक्टॉनिकली डाल सकते हैं। ई-बोटिंग अवधि शनिवार, 19 अगस्त, 2023 (प्रातः 09.00 बजे आईएसटी) को आरंभ होगी और सोमवार, 21 अगस्त, 2023 (05.00 बजे सायं, आईएसटी) समाप्त हो जाएगी। मतदान हेतु ई-वोटिंग मॉडयूल एनएसडीएल द्वारा सोमवार, 21 अगस्त, 2023 को सायं 05.00 बजे (आईएसटी) हटा लिया जाएगा। जो व्यक्ति कट ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं. तदनुसार उन्हें एजीएम नोटिस केवल सूचनात्मक उददेश्य के लिए मान लेना चाहिए सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार मतदान कर दिए जाने पर उसे बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के मतदान के अधिकार कट ऑफ तिथि को कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित शेयरों के समानुपात में होंगे। सदस्य जो पहले ही एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मतदान का प्रयोग कर चुके हैं वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परंतु पुनः अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। एजीएम में उपस्थित हो रहे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है वे एजीएम के

दौरान अपना वोट दे सकेंगे। कोई व्यक्ति, जो कि नोटिस के प्रेषित किए जाने के बाद कंपनी के शेयर अर्जित कर लेता है और सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 16 अगस्त, 2023 को शेयर धारण कर लेता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि यदि आप पहले से ही ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपनी वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

कंपनी ने श्री मनीष गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (एफसीएस संख्या: 4982), को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए निगरानीकर्ता के तौर पर नियुक्त किया है।

सदस्य, जो कि एजीएम के दौरान अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे अथवा प्रश्न करना चाहेंगे, वे एजीएम की तिथि से कम से कम 7 दिन पहले अर्थात मंगलवार, 15 अगस्त **2023, सायं 5.00 बजे (आईएसटी)** तक अपने नाम, डीपी आईडी और क्लायंट आईडी / फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने पंजीकृत ई—मेल पते से lumaxshare@lumaxmail.com पर अनुरोध भेज कर वक्ता के तौर पर स्वयं को रजिस्टर करा सकते हैं। केवल उन्हीं सदस्यों को, जिन्होंने स्वयं को वक्ता के तौर पर रजिस्टर कराया है, एजीएम के दौरान अपने विचार / प्रश्न रखने की अनुमति दी जाएगी। कंपनी के पास एजीएम में प्रश्नों की संख्या और वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित है।

सदस्य, जिन्हें एजीएम से पहले अथवा दौरान टेक्नोलॉजी के प्रयोग से जुड़ी किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है अथवा ई—वोटिंग को लेकर कोई प्रश्न अथवा मुददा या शिकायत है तो वे कृपया www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हेल्प / एफएक्यू खण्ड का संदर्भ लें अथवा टेलीफोन नंबर 022-4886 7000 और 022—2499 7000 पर कॉल कर लें अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज दें। वैकल्पिक तौर पर सदस्य कंपनी के कंपनी सचिव को भी ई–मेल आईडी lumaxshare@lumaxmail.com पर लिख कर सकते हैं।

> कृते ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड राजेश कुमार गुप्ता

कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

तिथिः जुलाई 31, 2023

तक बंद रहेंगे।